

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 16 नवम्बर, 2012

विषय- प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर संचालित होने वाले बालिका छात्रावास में विभिन्न पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- नियोजन/6247/बालिका छात्रावास-20/2010-11 दिनांक 25 फरवरी, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, महोदय भारत सरकार में दिनांक 16.12.2010 को ग्रान्ट-इन-ऐड कमेटी की बैठक में हुए निर्णय के क्रम में, उत्तराखण्ड के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए विकास खण्डों में माध्यमिक स्तर पर 19 बालिका छात्रावास खोले जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए निम्नलिखित अस्थाई पदों को, उनके सम्मुख अंकित नियत मानदेय पर नियुक्ति तिथि अथवा शासनादेश, जो भी बाद में हो, से दिनांक 29.02.2013 तक इस प्रतिबंध के साथ कि इससे पहले भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाएं, की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र. सं.	जनपद का नाम	बालिका छात्रावास का नाम	पदों का विवरण			
			वार्डन (पूर्व से कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका जिसे रु० 3000/- प्रति माह अतिरिक्त मानदेय देय होगा)	हैड कुक (रु० 3000/-प्रति माह)	सहायक कुक (रु० 2500 प्रति माह)	चौकीदार (रु० 3000 प्रति माह)
1	अल्मोड़ा	चगेठी (धौलादेवी)	01	01	02	01
2	देहरादून	कालसी (कालसी)	01	01	02	01
		त्यूणी (चकराता)	01	01	02	01
3	हरिद्वार	हरजौलीजट (नारसन)	01	01	02	01
		अकबरपुर ऊद (लक्सर)	01	01	02	01
		गोवर्धनपुर (खानपुर)	01	01	02	01
		बादीवाला (भगवानपुर)	01	01	02	01
		बाजूहेड़ी (रुड़की)	01	01	02	01
		बहादुराबाद	01	01	02	01
4	टिहरी गढ़वाल	रौशल (भिलंगना)	01	01	02	01
		रौतू की बेली (जौनपुर)	01	01	02	01
			01	01	02	01

		आमपाटा (नरेन्द्रनगर)	01	01	02	01
		लम्बगांव (प्रतापनगर)	01	01	02	01
		कौशल (थौलधार)	01	01	02	01
5	ऊधमसिंह नगर	बाजपुर (बाजपुर)	01	01	02	01
6	उत्तरकाशी	धनपुर (चिन्धालीसौंड)	01	01	02	01
		गंगनाणी (नौगांव)	01	01	02	01
		कण्डियालगांव (पुरोला)	01	01	02	01
		खरासारी (मोरी)	01	01	02	01
योग			19	19	38	19

2- उक्त क्रमांक-1 से 6 तक सृजित होने वाले पदों पर पदधारकों को शासन द्वारा तालिका के शीर्ष में इंगित/स्वीकृत नियत मानदेय नियमानुसार देय होंगे।

3- सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्तियां दिनांक 16.12.2010 को ग्रान्ट-इन-ऐड कमेटी की बैठक में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- 112 (P)/XXXVII-3/2012 दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या- 737(1)/XXIV-2/12/06(03)/2011 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव-मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 9- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा।
- 10- प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- शिक्षा अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जी0पी0 तिवारी)
अनु सचिव